



डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ- 226021  
फोन 2732193, फैक्स 2732185


पत्रांक: डॉ००पी०जे०अ०क०प्रा०वि०/अधि-पी-जी-/2017/4032

दिनांक: 31 मार्च, 2017

कार्यालय आदेश

सूचनार्थ है कि विश्वविद्यालय की शोध संस्कृति के प्रस्फुटन विकास एवं प्रोत्साहन योजनाओं, विस्वस्वैरैया रिसर्च प्रमोशन स्कीम, सेमिनार ग्रांट और ट्रेवल ग्रांट के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के उपरान्त निम्नवत संस्थानों के प्रस्तावों को ग्रांट प्रदान करने की संस्तुति की गई है। ग्रांट प्राप्त प्रस्तावों की सूची निम्नवत है:

1. Visvesvaraya Research Promotion Scheme				
S.No.	Institute Code	Institute Name	Department	Project Name
1	032	ABES Engg.College,Ghaziabad (032 )	Mechanical Engineering (ME)	Performance analysis and experimental validation of variable compression ratio engine using green fuel
2	001	Anand- Engg.College,Agra (001 )	Mechanical Engineering (ME)	Performance and emissions measurements of IC Engine using alternative fuels as per IS
3	192	Ganeshi Lal Bajaj Institute of Technology & Management,Gautam Buddh Nagar (192 )	Computer Science & Engineering (CS)	Computer Aided Decision Support System to Enhance Accuracy in Clinical Diagnosis
4	143	I.M.S. Engineering College,Ghaziabad (143 )	Computer Science & Engineering (CS)	Batwing a Multipurpose Drone
5	091	J.S.S. Academy of Technical Education,Gautam Buddh Nagar (091 )	Mechanical Engineering (ME)	Parametric studies during machining of Microchannels on Silicon wafer using micro ultrasonic machine
6	029	KIET Group of Institutions(Krishna Instt. of Engg. & Technology), Ghaziabad 029 )	Electrical & Electronics Engineering (EN)	Installation of kW Solar Power Plant with intelligent energy management system for PC Lab of the c



डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलाजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021

फोन 2732193, फैक्स 2732185

7	133	Noida Institute of Engg. & Technology, Gautam Buddh Nagar (133)	Bachelor of Pharmacy	Screening Of TRAPA SPP For Antioxidant And Anticancer Potentiality
8	033	Raj Kumar Goel Instt. of Technology, Ghaziabad (033)	Bachelor of Pharmacy	Bioavailability enhancement of poorly soluble drugs by using the nanosuspension technology

2. SEMINAR GRANT PROPOSAL

S.No.	Institute Code	Institute Name	Department Name	Title
1	032	ABES Engg. College, Ghaziabad	Mechanical Engineering (ME)	International Conference on Advances in Business and Engineering for Sustainability (ABES) 2017
2	290	ABES Institute of Technology, Ghaziabad	Electrical Engineering (EE)	Advanced Power Electronics & Motor Control Simulation Techniques
3	027	Ajay Kumar Garg Engg. College, Ghaziabad	Mechanical Engineering (ME)	National Conference on "Unconventional Manufacturing Technology"
4	097	Galgotia's College of Engg. & Technology, Gautam Buddh Nagar	Mechanical Engineering (ME)	International Seminar on research and application of Renewable Energy
5	192	Ganeshi Lal Bajaj Institute of Technology & Management, Gautam Buddh Nagar	Electronics & Communication Engineering (EC)	Medical Image Processing & Analysis
6	132	Greater Noida Institute of Technology, Gautam Buddh Nagar	Computer Science & Engineering (CS)	International Conference on Technology & Trust